

## Halfyearly Examination 2022-23

कक्षा- 10

समय - ३ घंटे

विषय - सामाजिक विज्ञान

पूर्णांक -70

प्रश्न 1. 'जौलवेराइन' का गठन कब किया गया?

(a) 1837 ई. (b) 1834 ई.

(c) 1835 ई. (d) 1838 ई.

प्रश्न 2. नेपोलियन की पराजय कब हुई थी ?

(a) 1814 ई. (c) 1816 ई.

(b) 1815 ई. (d) 1817 ई.

प्रश्न 3. वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की ?

(a) मैटरनिख (b) बिस्मार्क

(c) चार्ल्स दशम (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 4. 'नाइटहुड' की उपाधि किसने वापस कर दी थी ?

(a) महात्मा गाँधी ने (b) गोपाल कृष्ण गोखले ने .

(c) रवीन्द्रनाथ टैगोर ने (d) लाला लाजपत राय ने

प्रश्न 5. भारत में खिलाफत आन्दोलन कब और किस देश के शासक के

समर्थन में शुरू हुआ ?

(a) वर्ष 1920, तुर्की (c) वर्ष 1920, फ्रांस

(b) वर्ष 1920, अरब (d) वर्ष. 1920, जर्मनी

प्रश्न 6. इनमें से कौन-सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है ?

- (a) लैटेराइट मृदा (b) काली मृदा  
(c) जलोढ़ मृदा (d) पीली मृदा

प्रश्न 7. अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है

- (a) जलोढ़ मिट्टी (b) लाल मिट्टी  
(c) लैटेराइट मिट्टी (d) रेगिस्तानी मिट्टी

प्रश्न 8. निम्न में से एक कौन-सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है?

- (a) बगान (b) चरागाह  
(c) भूमि (d) खनिज संसाधन

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से किस प्रान्त में सीढ़ीदार (सोपानी) खेती की जाती है?

- (a) पंजाब (b) उत्तर प्रदेश के मैदान  
(c) हरियाणा (d) उत्तराखण्ड

प्रश्न 10. भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है

- (a) जलोढ़ मिट्टी (b) लाल मिट्टी  
(c) लैटेराइट मिट्टी (d) पर्वतीय मिट्टी

प्रश्न 11. बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है?

- (a) वालोनिया (b) ब्रूसेल्स  
(c) बॉन (d) पेरिस

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से कौन-सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है?

- (a) सिंहली भाषी या सिंहली समुदाय (b) श्रीलंकाई तमिल  
(c) भारतीय तमिल (d) एंग्लो-इण्डियन

प्रश्न 13. श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज्यादा रहते हैं?

- (a) उत्तर और दक्षिण (b) उत्तर और पूर्व  
(c) पूर्व और पश्चिम (d) दक्षिण और पूर्व

प्रश्न 14. ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं?

- (a) बौद्ध (b) हिन्दू  
(c) मुस्लिम (d) ईसाई

प्रश्न 15. बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है?

- (a) फ्रेंच (b) डच  
(c) डेनिश (d) जर्मन

प्रश्न 16. देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

- (a) संसाधन (b) जनसंख्या  
(c) औसत आय (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 17. किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?

- (a) प्रति व्यक्ति आय      (b) औसत साक्षरता दर  
(c) लोगों का स्वास्थ्य स्तर      (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 18. निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन-सा है ?

- (a) केरल      (b) पंजाब  
(c) उत्तर प्रदेश      (d) पश्चिम बंगाल

प्रश्न 19. निम्नलिखित में से कौन-सा गैर-नवीकरण संसाधन है ?

- (a) वन      (b) जल  
(c) खनिज तेल      (d) वायु ऊर्जा

प्रश्न 20. मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है ?

- (a) यू.एन.डी.पी.      (b) एम.एन.डी.पी.  
(c) यू.एन.डी.सी.      (d) यू.एम.डी.पी.

खण्ड 'ब'

वर्णनात्मक- 1 ( उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए)

1. फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों ने क्या कदम उठाए ?

अथवा

गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन क्यों स्थगित कर दिया ?

2. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी?

अथवा

आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहा जाता है? आर्थिक गतिविधि को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है?

3. भारत में खनिज तेल के वितरण एवं उपयोग का वर्णन कीजिए।

अथवा

सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

4. संघवाद की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

अथवा [modelpaper.info](http://modelpaper.info)

तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कौन-कौन से संघर्ष हुए?

वर्णनात्मक -2 ( उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए)

5. असहयोग आन्दोलन क्यों प्रारम्भ किया गया? उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था?

अथवा

19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

6. विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है? संक्षेप में बताइए ।

अथवा

वस्तुओं और सेवाओं से सम्बन्धित जानकारियों को प्राप्त करने के तरीकों की उदाहरण सहित व्याख्या करते हुए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए ।

7. भारत एक संघीय देश है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए

अथवा

सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर कैसे नियन्त्रण रखती है?

8. भू-संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए।

अथवा [modelpaper.info](http://modelpaper.info)

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं पाँच कारणों की विवेचना कीजिए।

मानचित्र कार्य

(क) निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा - मानचित्र में दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही स्थिति (चिह्न) के लिए ( $\frac{1}{2} + 2$ ) अंक निर्धारित हैं।

(i) नील की खेती करने वाले किसानों का आन्दोलन ।

(ii) किसान सत्याग्रह

(iii) सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह ।

(iv) वह स्थान जहाँ कांग्रेस का दिसम्बर, 1920 का अधिवेशन हुआ।

(v) वह स्थान जहाँ कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन हुआ ।

(ख) भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए ।

(i) गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य

(ii) कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र ।

(iii) कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ।

(iv) सलाल बाँध

(v) राणा प्रताप सागर बाँध

[modelpaper.info](http://modelpaper.info)